

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

प्रकाशरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 344]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 1970/भाद्र 25, 1892

No. 344] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 1970/BHADRA 25, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 16th September 1970

S.O. 3118.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 1196, dated 13th April, 1966, read with the Orders of the Government of India in the late Ministry of Commerce Nos. S.O. 1466, dated 13th May, 1966, S.O. 1346, dated the 12th April, 1967, S.O. 1377, dated the 12th July, 1967, S.O. 2564, dated the 31st July, 1967, S.O. 3083, dated the 1st September, 1967, S.O. 3308, dated the 15th September, 1967, S.O. 3605, dated the 16th October, 1967, S.O. 1343, dated the 15th April, 1968, S.O. 2081, dated the 7th June, 1968, S.O. 2757, dated the 2nd August, 1968, S.O. 3716, dated 15th October, 1968, and in the late Ministry of Foreign Trade and Supply (Department of Foreign Trade) Orders Nos. S.O. 1432, dated the 15th April, 1969 and S.O. 4161, dated the 10th October, 1969, and in the Ministry of Foreign Trade Orders Nos. S.O. 729, dated 15th January, 1970, S.O. 388, dated the 31st January, 1970, S.O. 715, dated the 21st February, 1970, S.O. 1880, dated the 22nd May, 1970, and S.O. 2376, dated the 14th July, 1970, the management of the industrial undertaking known as the Swadeshi Cotton and Flour Mills Limited, Indore, had been taken over by the Authorised Controller referred to in the Order, first mentioned above for a period upto and inclusive of the 15th September, 1970.

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the Public Interest that the management of the said industrial undertaking by the said Authorised Controller should continue for a period up to the 15th September, 1971;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (85 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order first mentioned above shall continue to have effect for a further period upto the 15th September, 1971.

[No. F. 10(8)TEX(A)/64-TEX(G)]

C. S. RAMACHANDRAN, Addl. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1970

का०आ० 3118.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 1466, दिनांक 13 मई, 1966, का० आ० 1346, दिनांक 12 अप्रैल, 1967, का० आ० 1377, दिनांक 12 जुलाई, 1967, का० आ० 2564, दिनांक 31 जुलाई, 1967, का० आ० 3088, दिनांक 1 सितम्बर, 1967, का० आ० 3308, दिनांक 15 सितम्बर, 1967, का० आ० 3695, दिनांक 16 अक्टूबर, 1967, का० आ० 1343, दिनांक 15 अप्रैल, 1968, का० आ० 2081, दिनांक 7 जून, 1968, का० आ० 2757, दिनांक 2 अगस्त, 1968, का० आ० 3716, दिनांक 15 अक्टूबर, 1968 और भूतपूर्व विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय (विदेशी व्यापार विभाग) के आदेश सं० का० आ० 1432, दिनांक 15 अप्रैल, 1969 तथा का० आ० 4161, दिनांक 10 अक्टूबर, 1969 और विदेशी व्यापार मंत्रालय के का० आ० 229, दिनांक 15 जनवरी, 1970, का० आ० 388, दिनांक 31 जनवरी, 1970, का० आ० 715, दिनांक 21 फरवरी, 1970 का० आ० 1880, दिनांक 22 मई, 1970 और का० आ० 2376, दिनांक 14 जुलाई, 1970 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 1196, दिनांक 13 अप्रैल, 1966 द्वारा दि स्वदेशी काटन एण्ड प्लोर मिल्स लि०, इन्दौर नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उपरिर्णित अन्तिम आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 15 सितम्बर 1970 तक के लिये, जिस में 3 तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था।

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण 15 सितम्बर, 1971 तक की अवधि के लिये बना रहना चाहिए।

अतः अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उपरिर्णित अन्तिम आदेश का प्रभाव 15 सितम्बर, 1971 तक की आगामी अवधि के लिए और बना रहेगा।

[सं० फा० 10(8)—टैक्स(ए)/64—टैक्स (जी)]

सी० एम० रामचन्द्रन, अपर सचिव।